



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938

No. 811]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/CHAITRA 15, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1300(अ).**—भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड (3), उपखंड (ii) तारीख 7 दिसंबर, 2015 में प्रकाशित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. 3294 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और तद् संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“सारणी-1		
क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	(i) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 कीड स्ट्रीट, कोलकाता - 700016	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र

	(ii) निदेशक, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद 201014	
2.	(i) निदेशक, खाद्य संरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर-570013	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमில்நாடு, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्ष्मीप
	(ii) निदेशक, राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्टावली रोड, कैटोनमेंट वाटर वर्क्स कम्पाउंड, पुणे - 411001	
3.	(i) निदेशक, राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्टावली रोड, कैटोनमेंट वाटर वर्क्स कम्पाउंड, पुणे - 411001	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर एवं नगर हवेली, गोवा तथा दमन और दीव
	(ii) निदेशक, खाद्य संरक्षा और विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा: केन्द्रीय खाद्य, प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर-570013	
4.	(i) निदेशक, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद 201014	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर
	(ii) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 कीड़ स्ट्रीट, कोलकाता- 700016	

## सारणी-2

क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	एतदधीन परिभाषित परीक्षण के विस्तार के अनुसार पूरे भारत में
(1)	(2)	(3)
5.	निदेशक, भारतीय उद्यान-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, हिसारघाटा लेक पोस्ट, बैंगलुरु - 560 089	फलों और सब्जियों, अनाजों और दालों, पानी, मसालों (कड़ी पत्तों) का पीड़कनाशी अवशिष्ट विश्लेषण, ताजा और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का पौष्टिक समीपस्थ और सूक्ष्म जैविक विश्लेषण।

6.	निदेशक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बैग सं. 01, पी ओ जकहिनी, (शहंशाहपुर), वाराणसी – 221 305	सब्जियों में पीड़कनाशी अवशिष्ट, भारी धातुओं, माइक्रोवियल संदूषकों, माइक्रोटॉक्सिन, प्रतिजैविकी, रोगाणुनाशी, कलरिंग एजेंट, अपमिश्रकों, खाद्य योजकों, फायटो हीमाग्लूटीनिन, एलर्जन इत्यादि का विश्लेषण।
7.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, पल्लरीवट्टम पी. ओ., कोच्चि – 682025	मसालों में रासायनिक संदूषकों (पीड़कनाशी अवशिष्ट, भारी धातुओं, अवैध रंजकों और किसी अन्य रासायनिक संदूषकों), माइक्रोटॉक्सिन (एफलाटॉक्सिन, ऑकराटॉक्सिन, इत्यादि), माइक्रोवियल संदूषकों, भौतिक संदूषकों और अपमिश्रकों का विश्लेषण
8.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, चुटुघंटा सेंटर, जी टी रोड, गंदूर – 522004	-यथोक्त-
9.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, प्लाट नं. आर – 11, सिपकोट इंड्रस्ट्रियल कंप्लैक्स, गुमीडिपुंडी, थिरुवल्लूर जिला, चेन्नई – 601201	-यथोक्त-
10.	निदेशक, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, प्रथम तल, बैंकिंग कंप्लैक्स II, सैक्टर 19ए, वाशी, नवी मुंबई – 400703	-यथोक्त-
11.	कार्यकारी निदेशक सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टोक इन फूड (सीएएलएफ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनंद- 388001, गुजरात	दूध और दुग्ध उत्पाद, दूध और दुग्ध उत्पादों में पीड़कनाशी, प्रतिजैविकी और पशु चिकित्सा औषधि, माइक्रोवियल संदूषकों और माइक्रोटॉक्सिन, भारी धातुओं, पोलीसाइक्लिक ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, डायोक्सिन, अन्य उभरते हुए संदूषकों और माइक्रोवियल मानदंडों का विश्लेषण

12.	<p>निदेशक,</p> <p>वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान,</p> <p>उप्पल रोड, तरनाका, हैदराबाद – 500007</p>	<p>वसा और तेलों में आर्द्रता का विश्लेषण, हैक्सेन अघुलनशील पदार्थ, अम्लतत्व, असाबुनीकरणीय पदार्थ, आयोडीन तत्व, साबुनीकरण तत्व, एलिल आइसोथायोसाइनेट, रिचर्ट मेसल वैल्यू, पैरोक्साइड वैल्यू, वसीय अम्ल संयोजन, सब्जी वसा में पशु शरीर फैट की उपस्थिति, कोल्ड ट्रैस्ट, भौतिक तत्वों के लिए परीक्षण, वनस्पति में निकल, सोयाबीन तेल में फॉसफोरस, विकृत गंधिता की उपस्थिति, घुलनशील रंग, बीफ वसा की उपस्थिति, फासफोलिपिड्स, टोकोफोरोल, ट्रांस फैटी अम्ल निर्धारण, पीड़कनाशी अवशिष्ट, भारी तत्व विश्लेषण</p>
13.	<p>निदेशक,</p> <p>राष्ट्रीय मांसाहार अनुसंधान केन्द्र,</p> <p>चैंगीचेरेला, बुडुप्पल, हैदराबाद – 500092</p>	<p>मांस तथा मांस उत्पादों का भौतिक-रासायनिक विश्लेषण (मांस प्रजाति पहचान, समीपस्थ संघटन, पीएच वैल्यू, जलधारण क्षमता, मांस पिरमैंट्स, पायस बनाने की क्षमता, फ्री फैटी एसिड, पैरोक्साइड वैल्यू, टीबीए वैल्यू, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, नाइट्राईट कंटेंट, मांस और मांस उत्पादों का संबेदी मूल्यांकन, संरचना और कोमलता, इन्स्ट्रूमैंटल कलर वैल्यू और वधशाला बहीःन्नाव का सीओडी स्तर), सूक्ष्मजैविक विश्लेषण, पीड़कनाशी अवशिष्ट और फैटी एसिड प्रोफाइल</p>
14.	<p>निदेशक,</p> <p>भारतीय सस्य (क्रॉप) प्रसंसकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, फूड सेफ्टी एंड क्लालिटी टेस्टिंग लेबोरेट्री, पुडुकोट्टई रोड, तंजावर - 613005, तमिल नाडु</p>	<p>ताजा और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का पौष्टिक समीपस्थ और सूक्ष्म जैविक विश्लेषण; पैकेज बंद पेयजल का विश्लेषण; अनाज व अनाज से बने उत्पाद एवं मसालों में पीड़कनाशी अवशिष्ट, भारी धातुओं, माइक्रोबायोलोजिकल संदूषकों का विश्लेषण।”</p>

[फा. सं. 3-2/आर पी/मानक/2012-एफएसएआई]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
**(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29<sup>th</sup> March, 2016

**S.O. 1300 (E).**—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Food Safety and Standards Authority of India) number S.O. 3294(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section – 3, Sub-section(ii), dated the 7<sup>th</sup> December, 2015, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

<b>“TABLE -1</b>		
<b>Serial No.</b>	<b>Name of the Referral Food Laboratory</b>	<b>Local Areas or States or Union Territories</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	(i) Director, Central Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata - 700016.  (ii) Director, Food Research and Standardization Laboratory, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014.	West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Assam, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Union Territories of Andaman and Nicobar Island
2.	(i) Director, Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, C/o. Central Food Technological Research Institute, Mysore –570013.  (ii) Director, State Public Health Laboratory, Stavely Road, Cantonment Water Works Compound, Pune-411 001.	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala Tamil Nadu, Telangana, Puducherry and Lakshadweep
3.	(i) Director, State Public Health Laboratory, Stavely Road, Cantonment Water Works Compound, Pune-411 001.  (ii) Director, Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, C/o. Central Food Technological Research Institute, Mysore –570013	Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Dadar and Nagar Haveli, , Goa and Daman and Diu
4.	(i) Director, Food Research and Standardization Laboratory, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014.	Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Union Territory of Chandigarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Jammu & Kashmir

	(ii) Director, Central Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata 700016.	
--	---	--

**Table -2**

<b>Serial No.</b>	<b>Name of the Referral Food Laboratory</b>	<b>All over India - as per Scope of Testing defined hereunder</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
5.	Director, Indian Institute of Horticultural Research, Hesaraghatta lake post, Bangalore - 560 089.	Pesticide residue analysis of fruits and vegetables, cereals and pulses, water, spices (curry leaves), Nutritional, Proximate and microbiological analysis of <b>fresh and processed food products.</b>
6.	Director, Indian Institute of Vegetable Research, Post Bag No. 01; P.O. JAKHINI, (SHAHANSHAPUR), Varanasi - 221 305.	Analysis of pesticide residue, heavy metals, microbial contaminations, mycotoxins, antibiotics, disinfectants, colouring agents, adulterants, food additives, phytohaemagglutinin, allergens etc. <b>in Vegetables.</b>
7.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, Palarivattom P.O., Kochi – 682025.	Analysis of chemical contaminants (pesticide residues, heavy metals, illegal dyes and any other chemical contaminant), mycotoxins (aflatoxins, ochratoxin etc.), microbial contaminants, physical contaminants and adulterants <b>in Spices.</b>
8.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, Chuttugunta Center, GT Road, Guntur – 522004.	-Do-
9.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, Plot No. R-11, Sipcot Industrial Complex, Gummidipoondi, Thiruvallur District, Chennai – 601201.	-Do-
10.	Director, Quality Evaluation Laboratory, Spices Board, First Floor, Banking Complex II, Sector 19A, Vashi, Navi Mumbai – 400703	-Do-
11.	Acting Director, Centre for Analysis and Learning in Livestock in Food (CALF), National Dairy Development Board (NDDB), Anand – 388001, Gujarat	Milk and Milk Products, Analysis of pesticides, antibiotics and veterinary drugs, microbial contaminants and mycotoxins, heavy metals, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, dioxin, other emerging contaminants and Microbial parameters <b>in milk and milk products.</b>

12.	Director, Council of Scientific and Industrial Research -Indian Institute of Chemical Technology, Uppal Road, Tarnaka, Hyderabad – 500007	Analysis of moisture, hexane insoluble matter, acid value, unsaponifiable matter, iodine value, saponification value, allyl isothiocyanate, Reichert Meissl value, peroxide value, fatty acid composition, presence of animal body fat in the vegetable fat, cold test, test for physical properties, nickel in vanaspati, phosphorous in soyabean oil, presence rancidity, soluble colors, presence of beef fat, phospholipids, tocopherol, trans fatty acid detetmination, Pesticide Residues, Heavy metal analysis <b>in fats and oils.</b>
13.	Director, National Research Centre on Meat, Chengicherla, Buduppal, Hyderabad – 500092	Physico-chemical analysis (meat species identification, proximate composition, pH value, water holding capacity, meat pigments, emulsifying capacity, free fatty acid, peroxide value, TBA value, cholesterol content, nitrite content, sensory evaluation, texture & tenderness of meat & meat products, instrumental colour value, COD level of slaughter house effluent), Microbiological analysis, Pesticide Residues and Fatty acid profiles of <b>meat and meat products”.</b>
14.	Director, Indian Institute of Crop Processing Technology, Food Safety and Quality Testing Laboratory, Pudukkottai Road, Thanjavur – 613005, Tamil Nadu	Nutritional, Proximate and Microbiological analysis of <b>fresh and processed food products;</b> <b>Packaged Drinking Water</b> analysis; Analysis of pesticide residues, heavy metals and microbiological analysis of <b>Cereals and Cereal Products and Spices.”</b>

[F. No. 3-2/RP/Standards/2012 – FSSAI]

PAWAN AGARAWAL, Chief Executive Officer